

सेवा में

सचिव रक्षा मंत्रालय,
भारत सरकार नई दिल्ली
नई दिल्ली

महोदय

सविनय निवेदन यह है की हमारा संगठन शहीद भगत सिंह बिर्गंड समाज सुधार समिति कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में कारगिल युद्ध में शहीद हुए भारतीय सेना के शहीदों को समर्पित एक मोटर कार रैली "शहीद सम्मान जागृति यात्रा" दिल्ली से कारगिल तक एक अनुशासित रूप से आयोजित करना चाहता है। जिस का आरम्भ 22 जुलाई 2018 को अमर जवान ज्योति इंडिया गेट दिल्ली से होगा। और 26 जुलाई 2018 को कारगिल युद्ध स्मारक कारगिल में एक वीर रस के देश भक्ति काव्य समेलन के साथ सेना के शहीदों को श्रधांजलि देते हुए गरिमामय समापन होगा।

यात्रा के उद्देश्य

1. सेना के शहीदों की याद में देश के नागरिकों द्वारा ऐसे आयोजन होने से देश के युवाओं में सेना के प्रति सम्मान और रुझान पैदा करना।
2. जम्मू कश्मीर जैसी कठिन परिस्थितियों में देश की सेवा करते सेना के जवानों का मनोबल बढ़ेगा और साथ ही ये एहसास भी होगा की देश उनके बलिदान को कभी नहीं भूलेगा।

विशेष आकर्षण:-

1. यात्रा में शामिल सभी गाड़ियों पर कारगिल युद्ध के शहीदों की फोटो लगाई जाएगी, हर गाड़ी अपने आप में एक फोटो गैलरी की तरह होगी और जहाँ से भी ये यात्रा गुजरेगी देश की जनता में शहीदों के प्रति सम्मान और जाग्रति पैदा करेगी।
2. यात्रा में आज़ादी की लड़ाई में शहीद हुए क्रान्तिकारियों के वंशज भी शामिल होंगे जैसे कि शहीद भगतसिंह के भतीजे श्री किरणजीत सिंह, शहीद राजगुरु के भतीजे श्री सत्यशील , पंडित रामनारायण आज़ाद जी के पौत्र श्री बाँबी दुबे और शहीद अशफाक उल्ला ख़ाँ के पौत्र श्री अशफाक उल्ला ख़ाँ जी आदि
3. यात्रा में शामिल सभी गाड़ियां राष्ट्रीय ध्वज के अतिरिक्त अन्य किसी भी ध्वज का इस्तेमाल नहीं करेगी। जिस से देश के भिन्न भिन्न प्रान्तों के व्यक्ति एक ध्वज के नीचे एक होकर देश की एकता और अखंडता का संदेश देंगे।

वचनबद्धता

1. सभी वाहन चालक यातायात के नियमों के अनुसार यातयात के सभी कानूनों का पालन करते हुए चलेंगे।
2. किसी भी स्थान पर रास्ता अवरुद्ध न हो इसलिए सभी वाहन एक कतार में चलेंगे।
3. यात्रा में शामिल किसी भी व्यक्ति द्वारा आपत्तिजनक नारे या भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जायेगा, जिससे देश में सौहार्द का माहौल न बिगड़े।

इस यात्रा की हर प्रकार की जिम्मेदारी शहीद भगत सिंह बिर्गंड समाज सुधार समिति की रहेगी। इस यात्रा की अनुमति प्रदान कर हमें अनुग्रहित करे आपकी अति कृपा होगी।

आप का यह सहयोग हमें आगे भी देशहित के कार्यों के लिए प्रेरित करता रहेगा।

धन्यवाद, जय हिंद।

भवदीय

अध्यक्ष

शहीद भगत सिंह बिर्गंड समाज सुधार समिति

